



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 7 जनवरी, 2022

पौष 17, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 11/ग्यारह-2-22-9(47)-17-टी०सी० 177-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश (225)-2022

लखनऊ, 7 जनवरी, 2022

अधिसूचना

प०आ०-20

उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 2017) की धारा 9 की उपधारा (1), उपधारा (3) और उपधारा (4), धारा 11 की उपधारा (1), धारा 15 की उपधारा (5), धारा 16 की उपधारा (1) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, का यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, और परिषद् की सिफारिशों पर एवं अधिसूचना संख्या 1207/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश (210)-2021, दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 का अधिक्रमण करके एतद्वारा, अधिसूचना संख्या क०नि०-2-842/ग्यारह-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश (09)-2017, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,—क्रम संख्या 3 के समक्ष,—

1—स्तंभ (3) में, शीर्षक “सेवा का वर्णन” में, मद (तीन), (छह) (नौ), एवं (दस) में, शब्द “संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण अथवा सरकारी निकाय” के स्थान पर, शब्द “संघ राज्य क्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण”, रख दिये जायेंगे;

2—स्तंभ (3) में, शीर्षक “सेवा का वर्णन” में, मद (सात), में, शब्द “संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, किसी सरकारी प्राधिकरण अथवा किसी सरकारी निकाय” के स्थान पर, शब्द “संघ राज्य क्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण”, रख दिये जायेंगे;

3—स्तंभ (5) में, शीर्षक 'शर्त में, मद (तीन), (छह), (सात), (नौ), एवं (दस) के समक्ष की प्रविष्टियाँ निकाल दी जायेंगी।

2—यह अधिसूचना तारीख 1 जनवरी, 2022 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,
संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 11 / XI-2-22-9(47)-17-T.C. 177-U.P. Act-1-2017-Order (225)-2022, dated January 7, 2022 :

No. 11 / XI-2-22-9(47)-17-T.C. 177-U.P. Act-1-2017-Order (225)-2022

Dated Lucknow, January 7, 2022

IN exercise of the powers conferred by sub-section (1), sub-section (3) and sub-section (4) of Section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section (15), sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017), the Governor, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, and in supersession of notification no. 1207/XI-2-21-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order (210)-2021, dated December 20, 2021 hereby makes the following amendments in the notification no. KA.NI.-2-842/XI-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order (09)-2017, dated June 30, 2017, namely :-

In the said notification, in the TABLE, against serial number 3,-

1. in column (3), in the heading "Description of service", in items (iii), (vi), (ix) and (x), *for* the words "Union territory, a local authority, a Government Authority or a Government Entity" the words "Union territory or a local authority" shall be *substituted*;

2. in column (3), in the heading "Description of service", in item (vii), *for* the words "Union territory, local authority, a Governmental Authority or a Government Entity" the words "Union territory or a local authority" shall be *substituted*;

3. in column (5), in the heading "Condition", the entries against items (iii), (vi), (vii), (ix) and (x), shall be *omitted*;

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of January, 2022.

By order,
SANJIV MITTAL,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 577 राजपत्र-2022-(1265)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 44 सा० राज्य कर-2022-(1266)-1000 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।